

Study- materials-6

SUBJECT-HINDI

SESSION-2020-21

CLASS-८

TOPIC: पाठ -3 -शब्द विचार

DAY-1

परिभाषा --

वर्णों का निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला वर्ण -समूह शब्द कहलाता है ।-

*1.वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए ।

2.शब्दों का अपना अर्थ स्वतन्त्र होता है ।

उदाहरण --- राम , आम

पद --- वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण के नियमों से बंधकर पद बन जाते हैं ।

*1.शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होना चाहिए ।

2. व्याकरण के नियमों से बंधे होने चाहिये ।

उदाहरण - वह राम है ।

शब्दोंके भेद -- स्रोत के आधार पर शब्दों को पाँच भागों में बांटा जाता है ----

1. स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पाँच भेद हैं -

1.तत्सम शब्द -- वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर उसी रूप में लिखे जाते हैं ,तत्सम शब्द कहलाते हैं

उदाहरण - . आम

2. तद्भव शब्द - वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के ही बदले हुए रूप हैं ,तद्भव कहलाते हैं ।

उदाहरण - आम

3.देशज शब्द -- जिन शब्दों और बोलियों की उत्पत्ति क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं से हुई है ,देशज शब्द कहलाते हैं ।

जैसे --झोला ,लोटा ,गाड़ी आदि ।

4.विदेशज -- वे शब्द जिनका मूल भारतीय भाषा न होकर ,दूसरे देश की भाषाएँ हैं ; जैसे -

1.अंग्रेजी --कार ,टेबल ,नर्स आदि ।

2. अरबी --अमीर ,गरीब ,आदमी आदि ।
3. फ़ारसी -- जायदाद ,कायदा ,हक आदि ।
4. तुर्की -- कालीन ,ताश ,तमाशा आदि ।
5. पुर्तगाली -- गमला , साबुन आदि ।
6. चीनी -- लीची ,चाय आदि ।
7. फ्रेंच -- पुलिस ,इन्जीनियर आदि ।
8. संकर - शब्द ---वर्षगाँठ , लाठीचार्ज आदि ।

2. रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं ----

1. रूढ़ शब्द -- जो शब्द एक विशेष अर्थ , किसी एक भाव या सजीव -निर्जीव संज्ञा के लिए रूढ़ हो जाते हैं , रूढ़ शब्द कहलाते हैं ।

जैसे -- नल , पानी आदि ।

2. यौगिक शब्द --वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं ,यौगिक कहलाते हैं ।

जैसे -- घुड़सवार ,घोड़ागाड़ी

3. योगरूढ़ शब्द -- वे शब्द जो दो शब्दों

के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं ,योगरूढ़ कहलाते हैं।

जैसे -- जलज ,हिमालय

DAY-2

व्याकरणिक प्रकार्य के आदर पर शब्दों के दो भेद हैं ----

1. विकारी शब्द --जिनशब्दों में लिंग ,वचन ,कारक तथा काल के बदलने से परिवर्तन आ जाता है ,विकारी शब्द कहलाते हैं ये चार हैं ----

1. संज्ञा -- लड़का पतंग उड़ा रहा है ।

लड़की पतंग उड़ा रही है

लड़के पतंग उड़ा रहे हैं ।

लड़कों ने पतंग उड़ाई ।

2. सर्वनाम -- वह अपने घर गया।

वे अपने घर गए ।

उन्होंने अपना काम कर लिया ।

3. विशेषण -- मोटा लड़का दौड़ रहा है ।

मोटी लड़की दौड़ रही है ।

मोटेलड़के दौड़ रहे हैं ।

4. क्रिया --- आज मैंने खरबूजा खाया।

2. अविकारी शब्द --- ऐसे शब्द जिनमें लिंग या वचन के बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आता ,अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार हैं --

1. क्रियाविशेषण -- सब जल्दी चलो ।

लड़की ने जल्दी खाना खाया ।

2. सम्बन्धबोधक -- वह मीणा से पहले आया आया

के बाद आदि ।

3. समुच्चयबोधक -- करण और वैभव आएंगे ।

ताकि ,अथवा आदि ।

4. विस्मयादिबोधक -- अरे ! कब आया ?

छी : !,उफ !आदि ।

DAY-3

अर्थ के आधार पर शब्दों के ढभेद होते हैं ----

1. एकार्थी शब्द - जो शब्द केवल एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं ,एकार्थी शब्द कहलाते हैं ।

जैसे-- घर ,कुर्सी आदि

2. अनेकार्थी शब्द --एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं ; जैसे -जल - पानी ,जल - जलना । कर - हाथ ,कर - टैक्स ।

3. पर्यायवाची शब्द -- ऐसे शब्द जिनके समानार्थ देने वाले अन्य शब्द भी हों ,पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं; जैसे -- जल - पानी ,अम्बु ,नीर

हवा -पवन ,वायु ,समीर

4. विलोम शब्द --एक - दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं; जैसे -- दिन -- रात

5. श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द - वे शब्द जो सुनने में एक जैसे होते हैं ,परन्तु उनका अर्थ अलग - अलग होता है उनकी वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है । जैसे - गृह - घर , ग्रह - नक्षत्र

6. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द - ऐसे शब्द जो वाक्यांशों / अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ; जैसे - उपकार मानने वाला -- कृतज्ञ

5. प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं --

1. सामान्य शब्दावली -- रोटी, कपड़ा ,खाना

2. तकनीकी शब्द -- सचिव ,रसायन आदि ।

DAY-4

1 . प्रश्नोत्तर -----

(1.) शब्द और पद में अंतर बताइये ।

उत्तर -- शब्द --वर्णों का निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला वर्ण - समूह शब्द कहलाता है ।

जैसे -- वह ,राम ,है

पद -- वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण के नियमों से बंधकर पद बन जाते हैं

जैसे ---वह राम है ।

स्रोत के आधार पर शब्दों के भेदों को उदाहरण सहित समझाइये ।

(3.) यौगिक और योगरूढ़ शब्द एक --दूसरे से भिन्न कैसे हैं ?

DAY-5

(4) अर्थ के आधार पर शब्दों के कौन - कौन से भेद हैं ?

5.) पांच ऐसे तत्सम शब्द लिखें जिनका हम अक्सर तद्भव में प्रयोग करते हैं ।

उत्तर -- तत्सम ----- तद्भव

आम्र ----- आम

अस्थि ----- हड्डी

दुग्ध ----- दूध

कर्म ----- काम

गृह ----- घर ।